



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 13, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/10064 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Bilada has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Bilada. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Office and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका बिलाड़ा, जिला- जोधपुर

प्रोफार्मा "क"

नगर निकाय- बिलाड़ा (जोधपुर) (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का गठन)

क्र. सं.	वार्ड संख्या	जनसंख्या लगभग	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	1292	वार्ड नं. 01 जोधपुर रोड़ बाणगंगा मोड़ उतर पश्चिमी बाए तरफ बंजारा प्याउ से एलआईसी कार्यालय, बगदाराम चांदावत का मकान, गेनारामजी सीरवी का बेरा, राठौड़ देवड़ा पोमावतो का मगरीया बाणगंगा नदी से पिचियाक ग्राम सरहद गंगा भाला होते हुए सार्दुलसिंह का थुम्बड़िया, सत्यवृत/हिम्मतसिंह फार्म हाउस बिलाड़ा सरहद जक्शन फाटक स्कूल, नहर, बेरा बबोया होते हुए बिलाड़ा की तरफ ग्रामोदय स्कूल आईटीआई, बेरा रॉकी, बेरा काजरावा, सतापड़ी बेरा, बेरा बिल्दा, रेलवे फाटक, नया बेरा, बड़ी फार्म हाउस रोड़, मोहनजी सांगर का बेरा, जितेन्द्र जी कोटवाल का बेरा, जब्बार जी बाड़ा, आदर्श मगरीया स्कूल जाने का रास्ते पर गोविन्दजी खटीक का बेरा, चौकीदारो का शमसान, तिलायचा

			<p>कृषि फार्म , विजयसिंह का मकान, इदगाह (कब्रिस्तान) बिलाड़ा निजी कॉलेज पालावत भवन , रामनगर, वाईएसके, डॉ. स्वरूपरामजी का मकान, कालुरामजी आर्य का बेरा ,पुनः जोधपुर रोड़ पन्नाराम सीरवी की दुकाने, चोयलो का जुन्ना मगरीया जाने वाला रास्ते पर आने वाले समस्त सम्पूर्ण बेरे कूएं व मकानात व मालजी का पिपलिया जोधपुर रोड़ बाणगंगा मोड बंजारा प्याउ तक सम्पूर्ण बाए तरफ के मकानात।</p>
2	2	1121	<p>वार्ड नं. 02 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से कृष्णा कॉलोनी चौराहा से कृष्णा कॉलोनी सम्पूर्ण मकानात, मालकोसनी रोड़, जटियों की कुण्ड, मालकोसनी रोड़, रेलवे फाटक डामर सड़क होते हुए, सातमार्गिया चौराहा से भेरु नगर होते हुए कागो का निम्बडिया, शारदा बालिका छात्रावास, बेरा छिपावा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालकोसनी चौराहा से तहसील रोड़ दयालचन्द मेहता भवन, हिम्मताराम वकील, नारायण सिंह राठौड़, सुभाष कालौनी पुराना किला बांयी ओर के सम्पूर्ण मकानात् दादावाडी, शीतला माता मन्दिर रोड़ क्रोस, कयूम चाचा ताले वाले का मकान, जाकिर भाई का मकान, जुम्मा मस्जिद के पीछे जुम्मा मस्जिद होते हुए अमीर हुसैन, भोमाराम चौकीदार सरोज नगर के पास पास होते हुए पांचाराम चौकीदार रोड़ क्रोस होते हुए, (मेरासियो का बास, चौकीदारो का मौहल्ला), हरदेव राम, अर्जुन राम चोकिदार के बाएं तरफ के सम्पूर्ण मकानात होते हुए श्री रामसिंहजी विश्नोई की भूमि, बिजलीघर के पीछे होते हुए पुनः रेलवे स्टेशन की ओर हरिजन बस्ती आबकारी विभाग ऑफिस, विश्नोई फार्म हाउस रोड़ के सम्पूर्ण मकानात्, पी.डब्ल्यू.डी. के सामने पुखराज वैष्णव के पास वाले समस्त मकानात्, रेलवे फाटक, पंचायत समिति बिलाड़ा अण्डर ब्रिज मदनजी का बेरा, गोरियों का बेरा से पुनः कृष्णा कॉलोनी चौराहा</p>
3	3	1214	<p>वार्ड नं. 03 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से राजकीय मरूधर केशरी अस्पताल, करणी कालोनी, खारवाल कृषि फार्म, तेजाराम खारवाल का मकान, गठुड़ी बेरा, सरदारिसंह व महिपालसिंह का मकान,देवनगरी स्कूल, भेरुजी का मन्दिर, सातमार्गिया बेरा, दुबलदीया कृषि फार्म, सातमार्गिया का नया बेरा, अमरजी का मकान, फतेह सागर भोपों का, बड़ी सरहद, खांडा बेरा जाने का रास्ता में बिलाड़ा सीमा में बगदाराम सांगर सांगरो का बेरा,नया बेरा सांगरो का कचेडी इत्यादि, मालकोसनी रोड़, ग्रामोदय कॉलेज, पार्वती नगर, मुंडिया खन्देड़ा, मुकलधाम आश्रम रामदास कुटिया, भागण बेरा, जक्शन फाटक से बिलाड़ा सीमा नहर</p>

			<p>राजस्व ग्राम बड़ी सरहद होते हुए रतनाराम जी सीरवी का बेरा, (राठोड़, काग, बर्फी, निम्बड़िया), सोलंकियो का बेरा, कृषक नगर स्कूल, गंगासागर बेरा, गहलोतो की ढीमड़ी, उन्दरिया बेरा, सागरों की उच्छल, आगलेचों की उच्छल, मुलेवों की ढाणी (भावी वाले की), जोधावा बेरा, सूरज बेरा, ढालिया बेरा, करोलियों की ट्यूबवेल, बोडावड़ो का खारचिया, जवरीलाल मेघवाल का भूखण्ड चोराया से मरूधर केसरी अस्पताल जाने वाला रास्ता सिन्दड़ो का थुम्बड़िया, परिहारों का खारचिया, लालावतों की बावड़ी, हीरावतों की बावड़ी, आईजी मारवाड़ महाविद्यालय का भूखण्ड, भियावतों की थुम्बड़िया, पनजी हाम्बड़ का बेरा, हाम्बड़ो का थुम्बा, पटेलो का नया बेरा, अस्पताल के पीछे सीरवियों का बेंरा मुर्दा कोटड़ी (चिकित्सक आवास) होते हुए पुनः राजकीय मरूधर केसरी अस्पताल तक।</p>
4	4	912	<p>वार्ड नं. 04 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से बिजासनी सातमार्गिया चोराया से मोहनजी बोचावत का बेरा मेघवालों की ढीमड़ी, मनोहर जी मेघवाल का घर, चिरावतों का अरट, चिरावतां का मकाणा, ओगड़ जी सीरवी का बेरा ,बेरा सदारण, डेयरी बूथ, नागोरो का खारचिया, पलावतों का खारचिया, बेरा पड़ाईवाला के समस्त मकानात् लखावतो का अरट, लादूराम सोलंकी का बेरा, गुरुकृपा कॉलोनी, सांखलों का अरट, बेरा खाजी वाला, नारायणसिंह जी सोढ़ा का मकान, बिजासनी सरहद से नगरपालिका बिलाड़ा की सीमा में दलपत सिंह जी सीरवी का मकान होते हुए रोहिताश्व की जोड़, बेरा मामाजी का ओरण बिजासनी जाने का रास्ता से बढेर की नोकडी, सतगुरु कृषि फार्म, छांटु बन्ना का बेरा, (अन्दर के बेरे वार्ड सं. 16 स्कूल, गुडियों का नवोडा, सरगरो का बेरा, नरिंगरामजी का बेरा, उगम सागर पटेल कृषि फार्म, अचलाराम उकारबा का नवोडा) पुनः बढेर की जोड़ गौचर भूमि बिलाड़ा सीमा में आगरा, देवाराम जी सीरवी का बेरा, राजूराम नेण विश्नोई का बेरा, पन्नारामजी बर्फी का बेरा, किशनजी का बेरा, लाबुराम बर्फी रामसागर बेरा, पटेल कृषि फार्म, गोपाल गुर्जर का मकान, जैतिवास सम्पर्क सड़क से पुरखाराम जी चोयल का बेरा, चम्पालाल जी माली का बेरा, पुनाराम जी/ढगलारामजी चान्दावत का बेरा, गुडिया बेरा जाने वाला रास्ता, जान्जावतों का बेरा, घीसाराम जी का बेरा, अमृत सागर बेरा, मिश्रीलाल जी सीरवी का बेरा, टेवकी स्कूल के सामने, लादूराम जी जान्जावत का कुडिया बेरा, बायी और के सम्पूर्ण मकानात से आगे नहर बाला होते हुए, बेरा हनुमान</p>

			सागर के मकानात, नारायणलाल जी काग का बेरा, आगलेचो की प्याउ, सुथारो का बेरा, मेघवालो की ढीमडी से पुनः बिजासनी सातमार्गिया चोराया से मोहनजी बोचावत का बेरे तक सम्पूर्ण मकानात।
5	5	1118	वार्ड नं. 05 उतर पश्चिमी बाएं ओर से बिलाड़ा सीमा गुजरो का ढाणा से आगरा गोचर भूमि होते हुए ग्राम सरहद जेलवा, थरासनी, जेतीवास बिलाड़ा सीमा में जैतिवास पतालियावास रोड़ पर (बेरा हीरावतो का अरट, बडेर का नवोडा, बडेर की ढाणी, बर्फो का नवोडा, टीलबा व बडेर का नया बेरा, अन्नपूर्णा कृषि फॉर्म, तुलछाराम राठौड़ का बेरा) पुनः बिलाड़ा सीमा बिजलीघर के सामने बांयी ओर कुण्डाल जाने वाले रास्ते पर लक्ष्मण जी परिहार का बेरा, दर्इराम जी सीरवी का बेरा, पेमबा का बेरा, मनोबा की ट्यूबवेल, रतनसागर, उगम सागर, मनोबा का नया बेरा, फुआराम जी का बेरा, हनुमान सागर, कुण्डाल, चोला बा राठौड़ का नया बेरा, भैरूजी का मन्दिर नाडा, चुतराराम जी का बेरा, चोयलो का नया बेरा रामसागर, मुलेवा का नया बेरा, सार्वजनिक पिचका चैनपुरा की ढाणी से जैतीवास रोड़, कुमराट, चौधरियाट, पिपलिया बेरा होते हुए रोड़ क्रॉस करते हुए जीजीमाता की पाल के पास स्काउट मैदान पतालियावास, सरगरो की ढाणी, पतालियावास गौशाला जोगीयों की ढाणी, मिरासियों की ढाणी, पुनः उतर पश्चिमी बाएं ओर से बिलाड़ा सीमा गुजरो का ढाणा से आगरा गोचर भूमि तक बीच वाले सम्पूर्ण मकानात व कृषि कुएँ।
6	6	933	वार्ड नं. 06 उतर पश्चिमी बाएं ओर से सराई हाम्बड़ो का नया बेरा, तिकली मगरी, हाम्बड़ो की ट्यूबवेल सेपटो की उच्छल, चैनपुरा ढाणी रोड़, कोटवालों का नवोड़ा हाम्बड़ो का बेरा, इकाली बेरा, किशनजी भाकराणी का बेरा, पतालियावास स्कूल खेल मैदान, सोलंकियों का अरट गहलोतों का अरट, भीजबा भाकराणी का बेरा जीजी माता मन्दिर के सामने वाला बाबुलालजी लेरचा का अरट, रायणाआट से चैनपुरा की ढाणी नाथु खां जी का मकान महात्मा बुद्ध सागर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पतालियावास सम्पूर्ण चैनपुरा की ढाणी पूर्वी बास, सीरवीयों का बास सम्पूर्ण मकानात् से दासो का नयाबेरा हॉल, हिम्मताराम जी भाकराणी, बिंजाराम भाकराणी, जैतिवास अटबड़ा ग्राम सरहद अरावली पहाड़ी क्षेत्र से बिलाड़ा सीमा, डींगडी माता के पीछे बग्गाराम जी मेघवाल की भूमि, डींगडी माता स्कूल पुनः हाम्बड़ो की सराई तक बीच वाले सम्पूर्ण मकानात् एवं कृषि कुएँ।

7	7	1299	<p>वार्ड नं. 07 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से सोजत मार्ग चौपड़ा फिडर नहर से नहर बाला होते हुए जैतीवास सम्पर्क सड़क मुलेवों का टैंडा टेवकी स्कूल, डेयरी बूथ, मोदी गैस गोदाम, बेरा मकतावण, मेघवालों की ढिमड़ी, खदाव कृषि फार्म, दासों का अरट, चैनपुरा की ढाणी रोड इकाली बेरा, सामुदायिक भवन, (जान्जावतो का नवोडा, चुतरबा का बेरा, हनुमान सागर, बेरा उपरला अरट, बेरा बादेली, बेरा नाडा, जान्जावतों की डोली, आइणो का अरट, सीलावटों का अरट, सोलंकियो का नया बेरा, सोलंकियों की ढीमडी, बेरा भाडिया, बेरा रोबडी, बेरा पिछोला, बेरा मकतावण, डेरी होल, कागों का नवोडा, दुर्गाराम जी पंवार का नया बेरा, प्रेमनगरी स्कूल.), नव दुर्गा कृषि फार्म चुतराराम जी का बेरा, गोपजी की सराई, विजयसिंह की सराई, ओगड़ बा की सराई (शिवसागर इकाली का नया बेरा), सराई, दुर्गा सोलकी का नाडा, भभूतराम परिहार का बेरा, कागों का सिरिया, डीगड़ी माता मन्दिर रोड से बिलाड़ा की तरफ कागो का नया बेरा, जान्जावतों का बेरा हुकमाराम जी सोलंकी का अरट, डेयरी बूथ, बर्फों का नवोडा, दूदारामजी का पंवारों का नवोडा, दुर्गाराम जी का बाडिया, नई कॉलोनी भूमि, रमेश जी पटेल की दुकान, जय अम्बे मन्दिर, बेरा बोरडी वाला से पुनः सोजत मार्ग चौपड़ा फिडर नहर के बाएं ओर के समस्त मकानात तक।</p>
8	8	996	<p>वार्ड नं. 08 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से हर्ष रोड तलाब की पाल, घेवरजी लौहार का भूखण्ड, सोजती गेट बस स्टेण्ड, पुखजी, आधुनिक शौचालय, सुभाष पार्क, धर्मशाला, सरगरा समाज की दूकान, सोजत मार्ग रोड क्रॉस करते हुए अम्बेडकर सर्किल, पशु चिकित्सालय, पानी की टंकी, बालियाव, चम्पालाल सरगरा का मकान, चन्द्रप्रकाश सीरवी का मकान, एस.एम.एस एकेडमी, सिद्धी विनायक नगर, चोईस फुटवेयर दूकान, रूपाराम सीरवी का मकान, मदनिंसह जी की ऑयल मील, हनुमान मन्दिर, व्यास भवन, खोडा हनुमान जी का मन्दिर, जेतीवास बिलाडा सम्पर्क रोड, नेनजी सीरवी मिस्त्री का बेरा, बेरा गम्भीरमल जी की ढीमडी, लालसिंह/पन्नासिंह का बेरा, दीवानजी की प्याउ, सातमार्गिया बेरा, सातमार्गिया चोराया से जोड़ रोड़ पीपल, बेरा बडा अरट, आगलेचो का खारचिया, बेरा, थानाराम जाट का बेरा, धन्नाराम पटेल का बेरा, कानाराम परिहार की ट्यूबवेल, बचनाराम सरगरा की कृषि भूमि, नहर भाला से जेतीवास सम्पर्क सड़क, (बेरा लावेरा अरट, बेरा शिवसागर, मेघवालों की ढीमडी, लेहणियों का अरट, भूतावा बेरा.), शायर जी मिस्त्री का बेरा,</p>

			<p>नहर के उपर शेषाराम खदाव का प्लांट व भूमि, चौपडा फीडर नहर, खारी बेरा,(परिहारो की ढीमडी, चिरावतो का अरट, कोटवालों का बाडिया, गुन्जावा बेरा,) तुलछाराम सांगर का बेरा, सुथारों की ढीमडी, बगदाराम पटेल की फेक्ट्री, कृषि मण्डी मोती सिंह स्टेडियम, नगर पालिका कार्यालय एवं मंगलाराम सररवी की दुकाने एवं पास की समस्त दुकाने एवं मकानात लेते हुए पुनः कृषि मण्डी के पीछे वाली रोड से , महिला बाल विकास विभाग, हर्ष रोड अम्बेडकर छात्रावास, राजोलाव तालाब से हर्ष रोड सोजती गेट तालाब की पाल तक बांयी ओर समस्त मकानात।</p>
9	9	980	<p>वार्ड नं. 09 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से तहसील रोड, प्रसन्नजी तातेड़ का मकान व दूकान से महावीर भवन (जैन स्थानक), जुगराज जी बोहरा का मकान, जैन स्थानक, चेतनजी मास्टर का मकान, प्रकाश जी पटवारी का मकान, जैन रिंगनी मैदान, कमल गिरी का मकान, भाटो का बास, नम्बर 01 स्कूल, पुरानी गर्ल्स स्कूल मनोहर जी का मकान, पुरानी एसबीबीजे बैंक, चम्पालाल जी सरार्फ की पोल, पुखराज जी सोनी का मकान, मुरलीजी का मकान, आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल, रखाराम जाट वकील का मकान, झुमर जी दर्जी का मकान, तहसील रोड, बाबुलाल जी रांका, उगमराज पगारिया का मकान, जमालुदीन जी का मकान व चक्की, तहसील कार्यालय, प्याउ, बार एसोशिएसन मुन्सिफ कोर्ट व आवास, अर्जुन राजपूत का मकान, युसुफ जी का मकान, पुरानी भूमि विकास बैंक, प्रकाश जी तातेड़ का मकान व दुकाने, आदर्श कॉलोनी, अरिहन्त कॉलोनी, डाकघर, खेमजी सोनी का मकान, विशनोई समाज भवन व कृषि भूमि व दूकानें, बिजासनी रोड, राठौड़ो का बेरा, मुर्दा कोठरी के सामने, लालावतो का झालरा, पंवार का बेरा, जीयोजी की ट्यूबवेल, सातमार्गिया चोराया, मोहनजी करोलिया की आखली, पटेलो का थुम्बडिया, भीवराज जी का थुम्बडिया, मानाराम जी का थुम्बडिया, रोहिताश्व नगर कॉलोनी, कागों का पीपलिया, बढेर पार्किंग जाने का रास्ता, आरडीएसएस खेल मैदान, सीरवी समाज छात्रावास से चान्दावतों का बास से आईमाता मन्दिर रोड, चान्दावतों की गली अमृता ब्यूटी पार्लर (चम्पालाल जी जागंडा), सुदेश लोढ़ा की दुकान, राधेश्याम जी सोनी की दूकान, बक्सो बा का मकान, चिमनाराम जी लोहार का मकान, तातेड़ो की पोल, श्री राम मन्दिर, छत्री चौक पुनः तहसील रोड, प्रसन्नजी तातेड़ का मकान व दूकान के बाएं ओर के समस्त मकानात तक।</p>
10	10	1388	<p>वार्ड नं. 10 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से मदनजी काग की कृषि</p>

			<p>भूमि, प्रस्तावित गोकल नगर रेलवे स्टेशन चौराहा मालकोसनी रोड़ होते हुए रेलवे अण्डर ब्रिज, रेलवे गोदाम रेलवे गुमचक्कर, सरोज नगर कॉलोनी, चौकीदार का मकान, सदीक उस्मानजी का मकान, जुम्मा मस्जिद के तीन मकान, अब्दूल गफार, निशार अहमद, सौकत अली, यूनुस, अब्दूल हलीम, मो. युसुफ जी आरआई, युसुफजी की पोल, खेतेश्वर भवन, तहसील के सामने पुरोहितों का बास,सेवड़ो की पोल, हिम्मतसिंह व कल्याण सिंह का मकान,अनोप सिंह की दूकान, शार्दुल सिंह का नोहरा, मानाराम जी सीरवी का दूकाने, अनिल कटारिया का मकान, मुन्नसा भावी वाले का मकान, चन्द्रसिंह जी राजपुरोहित का मकान, चम्पालाल भण्डारी का भूखण्ड, जटपणों का बास, अमर जी पटेल का मकान, जयराम पटेल, दिनेश पटेल का मकान, खुर्शीद अहमद का मकान, अखलाख का मकान, व्यापारियों व कसाईवाडा रोड जुम्मा मस्जिद, मो. हुसैन का मकान, अब्दुल कयुम चाचा का मकान व दूकान, जटियों के बास की गली, साबिर हुसैन रंगरेज का मकान, फकीर मो. कबाड़ी का मकान, मो. खान, मो. सलीम का मकान, दलाराम जी रेगर का मकान, जटियों का बास, मोहनलाल जी का मकान, सीताराम जी रेगर का मकान, बाबुलाल जी नेनीवाल का मकान, पेमारामजी का मकान, सुरेश जी खटीक मकान, राकेश जी खटीक, त्रिलोक जी खटीक, राजूजी खटीक, पुनाराम का भूखण्ड, सुरेश धोबी का मकान, राजु चोयल, सिकन्दर खां, अचलाराम जी, खुर्शीद कसाई, इन्द्रा कालोनी से चौयलो की ढिमड़ी, की बांए ओर सुरेन्द्र काग का मकान, नारायणजी चौयल, पेमारामजी, अमरजी, राजूभाई दुग्ध वालो की कृषि भूमि, नगर पालिका बिलाड़ा के पुराने शौचालय के पीछे कृषि भूमि होते हुए इण्डियन गोट फार्म, उस्मान पिंजारा की भूमि मालकोसनी रोड़ एफ.एम. कुरेशी कॉलोनी से पुनः मदनजी काग की कृषि भूमि, प्रस्तावित गोकल नगर के बांए ओर के समस्त मकानात तक।</p>
11	11	1199	<p>वार्ड नं. 11 उतर पश्चिमी बाएं ओर से बस स्टेण्ड, मिश्रीलाल कुम्हार महादेव स्वीट होम से हरिजनों का बास रास्ता, कल्याण जी सीरवी की दूकानें, मानाराम भाकराणी की दूकान, बाबुलाल बर्फा की दूकान शिवशक्ति टायर, शेषाराम जाट की दूकान, शिवनन्द कलाल की दूकान व मकान, चम्पालाल माली की दूकान, शान्तिलाल तेलीड़ा यश बैंक, भारत मोटर गैराज, माधुजी चान्दावत का मकान विजया बैंक, पलकीन होन्डा शोरूम, दूरभाष कॉलोनी व कार्यालय, कॉपरेटिव पेट्रोल पम्प, जगदम्बा किराणा</p>

			<p>स्टोर, मालकोसनी रोड़, पीएचईडी ऑफिस, भगवती सर्विस सेन्टर, मिश्रीलाल सीरवी का मकान, न्यू लाईट कॉलोनी, दुग्ध अभिशीतन केन्द्र, हरिजनों की शमशान भूमि, वैष्णव लघु कृषि फार्म भूमि से कृषि भूमि होते हुए नगरपालिका पूराना शौचालय के अन्दर के इन्द्रा कोलानी जाने वाला रास्ता दाएं ओर के मकान हनुमान जी मूलेवा जीनिंग फेक्ट्री व मकान, इमानुएल मिशन स्कूल, महादेव जी का भड़वा, बाबु खटीक का मकान, कालूशाह का मकान, गफुर चाचा तेली का मकान, ,रुस्तम खां का मकान, मोहम्मद शाह का मकान, बाबुखां कुन्जड़ा का मकान, अब्दुल सतार चाचा का मकान, पूनमचन्द जी हरिजन का मकान, अब्दुल मुनान का मकान, नगरपालिका पूराना शौचालय से पुनः बाएं ओर याकुब भाई कबाड़ी का मकान, गोविन्द जी खटीक का मकान, बड़वा जाव, आसाराम जी रेगर का मकान, जगदीश जी एईन का मकान, सरफराज बिसायती का मकान से रोड़ क्रॉस अंदर के लालशाह का तकिया, कृपाराम जी आचार्य का मकान, मास्टर किशनलाल कॉलोनी, सिराजूदीन जी मास्टर का मकान व दूकान, पेमाराम हरिजन का मकान, हरिजन मोहल्ला, पठान सीमेन्ट (बिनानी) की दूकान, चनणाराम जी रेगर का मकान व दूकान, गफूर जी पठान का मकान, कोहिनूर टेलर की दूकान पुरानी सब्जी मण्डी रोड़ मोहम्मद पुस्तक भण्डार मदरसा मस्जिद, मदरसा के बांयी तरफ की दूकानें, पुरानी सब्जी मण्डी सरगरो का बास, मेघवाल समाज दूकाने, नगरपालिका की दूकाने, अमरजी पटेल की दूकान व मकान, मेघवाल समाज की पीछे वाली दूकाने, रेगर व खटीक समाज की दूकाने, पटेल समाज की दूकाने, भारत कम्प्यूटर, भवानी स्वीट हॉम, सरगारों का बास सुभाष मार्ग, पटेल एण्ड कम्पनी, पुखराज लौहार, जैन पेट्रोल पम्प, बस स्टेण्ड से पुलिस गुमटी से पुनः बस स्टेण्ड, बाएं ओर, मिश्रीलाल कुम्हार महादेव स्वीट होम के मकानात तक।</p>
12	12	1208	<p>वार्ड नं. 12 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से किशनाराम जी सीरवी का मकान व दूकान, ममता बाई का मकान, सत्यनारायण जी का मकान, गोपाराम सांसी का मकान, शास्त्री पार्क, नगरपालिका पुस्तकालय, इन्द्रा कॉलोनी स्कूल, जीतु, राकेश खटीक का गोदाम, पारसमल जटिया का मकान, तेजाराम, मांगीलाल, मलीक हुसैन का मकान, गली से बाहर सोकत कबाड़ी का मकान, हाजी अब्दुल सलाम का मकान, सरफुदीन, मो. युसुफ, सत्यनारायण, अब्दुल हमीद, रमजान खान, असफाक जी, मो. रमजान जी के</p>

			<p>मकानात, आंगनवाड़ी केन्द्र 12, हाजी मो., अब्दुल रजाक, मो. इमरान, नियामुदीन का मकान, सोहनपुरी, भीमपुरी के मकानात, रंगरेजों का बास, ताराचन्द कलाल, बबलु जी कलाल, आनन्द जी कलाल के मकान, निजामुदीन, रोड़ क्रोस हंसराज गुप्ता, सांगरों की पोल, गुलाम रसूल, आचार्यो की गली, असकर अली, नुरदीन काजी, अब्दूल रहमान, कमरुदीन, इस्माईलजी का मकान, घनश्याम जी पटेल की दूकान, शिवराज गजराज की दूकान, गोविन्द जी सोनी की दूकान, दरगाह रामदेव चौक, मानमलजी चोरड़िया की दूकान, सुरेश जी सोनी की दूकान, भण्डारी मार्केट, दिनेश जी माली की दूकान, अशोक रघुनाथ जी का मकान, पुखराज जी सोनी का मकान, नरेन्द्र सिंह माधुसह की दूकान, मो. अली का मकान व दूकान, रामेश्वर सोनी की दूकान, भंवरलालजी पटेल से पुनः बांए ओर मौती चौक राजेन्द्र पटेल का मकान (फेमस टेलर), रोड़ क्रोस वासुदेव गुप्ता के मकान व दूकान से मोती चौक, गुलाम रसूल, रफीक चक्की, व मकान, पारस रेस्टोरेन्ट, फेशन एम्पोरियम, असकर जी का मकान, प्रकाश जी सोनी की दूकान, नौस्ती दरवाजा, सरगरो का बास, राजा बली का मन्दिर, बोहरा धर्मशाला, रमेश माहेश्वरी का मकान, प्रताप जी, कालूजी, गिरधारी सरगरा का मकान, मोहब्बत लाल का मकान, रमेश माहेश्वरी की दूकान, हरिजनों का मोहल्ला रोड़, दुलीचन्द, भंवरलाल, राजूराम, खीयाराम, कन्हैयालाल हरिजन का मकान, राजेश, हरदीन जी का मकान से पुनः इन्द्रा कॉलोनी किशनाराम जी सीरवी का मकान व दूकान बांए ओर के समस्त मकानात तक।</p>
13	13	1398	<p>वार्ड नं. 13 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से कसाईवाड़ा रोड़, मेहबूब अली, रंगरेजो का बास, रामदेवजी का मन्दिर, मो. तोफिक, सोकत अली, मुमताज अली, असकर अली, शाबुसेर जी मास्टर, तेलियों के बास की गली, गफार जी ठेकेदार का मकान, अलादीन छेलूखां का मकान, सुबराती खान का मकान, खुर्शीद जी का मकान, बशीरजी का मकान कमरुदीन का मकान जाकिर हुसैन, निसार जी भंवरलाल खटीक का मकान, हीरालाल जी खटीक का मकान, हिसामुदीन का मकान, नेमीचन्द खटीक खटीकों का बास, रोड़ क्रॉस चम्पालालजी खटीक का मकान, भारत हुसैन जी मास्टर का मकान, आचार्यो का बास, शेर खां का मकान, दाउद खां का मकान, गफार बा रमजान खां, गफार खां जी, असकर जी, मो. अयुब, एहसान खां, बाबुलाल मोटावत का मकान, नागौरो का चौक के सामने लाबुरामजी पटेल का मकान, कालूजी</p>

			<p>डफरिया का मकान, प्रकाश जी तातेड़ का मकान, रोड़ क्रोस, पुलिस लाईन क्वाटर, केवलजी आचार्य, गौतमजी ओसवाल का मकान, करमावास वाले सोनीजी का मकान, शान्तिलाल नगर सेठ, जगदीशजी कड़ेला की गली, विजयराज सोनी का मकान, श्यामसुन्दर दाधिच का मकान, प्रकाशचन्द बनवट, मदनजी जैन नगर सेठ, पंकज जैन की गली, रिकबचन्द, सम्पतराज जैन, प्रसन्न तातेड़ की दूकाने, छत्री चौक, से ढाल रोड़, पारस पटेल, जोगाराम पटेल, मूलचन्द बनवट, कन्हैयालाल सोनी की दूकान, चारभुजा मन्दिर, जहाजपीर बाबा की दरगाह, रामदेव मन्दिर चौक, गजराजजी कामदार की दूकान, रामेश्वर चन्द्रप्रकाश दाधीच का मकान, आचार्या की गली, अकबर पठान सीमेन्ट वाले का मकान, अमृतलाल आचार्य, आचार्यों की गली, रामदेव मन्दिर, फयाज अली, ओमप्रकाश आचार्य, विश्राम आचार्य, रोड़ क्रोस, बून्दू खां का मकान, जफर हुसैन का मकान, फारुक अहमद, गुजर की गली, कोहिनूर टेलर, असलम अण्डे वाले का मकान व दुकान से पुनः मेहबूब अली रंगरेजों का बास के सम्पूर्ण मकानात</p>
14	14	1397	<p>वार्ड नं. 14 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से खत्रियों की पोल, सत्यनारायण मन्दिर, गौतम जी बनवट का मकान, शान्तिलाल धनराज गादिया का मकान, कुईवाला बास, व खारोलों का चौक, किशोर जी ओसवाल, भंवरलाल कटारिया का मकान, नागौरो का चौक, अमरदास जी वैष्णव, सोहन जी मोटावत, इकबाल खां के मकानात्, चान्दूखां सिपाही, नाथों के घर, मस्जिद/मजार, ताबूतो का चौक, बुन्दू खां, कमरूदीन का मकान, इब्राहिम खां का मकान, नन्दुजी लखारा के मकान, कसाईवाडा रोड़ से व्यापारियों का बास वाली रोड़ बायी ओर मो. युसुफ, मो. इमरान, खुर्शीद अहमद, अब्दुल सलाम के मकानात् होत हुए तहसील रोड़, अब्दुल गफार, सिकन्दर खां, भंवरलाल पटेल, ढगलाराम नाई, गोरियों का बास, महावीरजी भण्डारी, मोहनलाल जी भण्डारी की पोल (मनवार होटल), जयन्तीलाल पगारिया, कन्हैयालाल जी हिरण, जीवराज जी चारण, नारायण सिंह जी सोढा का मकानात्, होली चौक, शान्ति भवन, मनोहर तातेड़ का मकान, विमल विहार, अर्जुन राजपूत का मकान, इलो जी का मन्दिर, डफरियों की पोल, सुशील सोनी का मकान, सुनारों की पोल, राजेन्द्र सोनी का मकान, कटारियों के पोल की गली, जैन समाज का भूखण्ड, महादेव जी का मन्दिर, जैन सूरी मन्दिर, जीवन प्रकाश मन्दिर, गोटी भवन, शान्तिलाल का मकान, कबूतरों का चबूतरा, चावनदानजी चारण का मकान, सत्यानारायण दाधिच का मकान</p>

			से पुनः खत्रियों की पोल सत्यनारायण मन्दिर बाएं ओर के समस्त मकानात तक।
15	15	1332	वार्ड नं. 15 उतर पश्चिमी बाएं ओर से बढेर आई माताजी के मन्दिर का मुख्य द्वार, मेघवालों का बास, शिवजी मेघवाल का मकान व दूकान, चान्दावतो का बास जाने वाली गली, आई माता मन्दिर के पीछे का बाग, सीरवी छात्रावास, आर.डी.एस.एस. स्कूल व खेल का मैदान, कृषि भूखण्ड, मन्दिर पार्किंग गेट, जैती रोड़, गौरव पथ, खोडे हनुमान मन्दिर के सामने, अमर बाग, सुरेश पटेल का मकान, फुल बाग, कानसिंह जी थानेदार का मकान, ताराचन्द्र का मकान, रतनजी मेघवाल का मकान, राजेन्द्र परिहार का मकान, गोरधन पटेल का मकान, शिवम् टेन्ट हाउस, नाथद्वारा मन्दिर रास्ता नगरपालिका पशु फाटक ट्रेक्टर गैराज, नाथद्वारा शिव मन्दिर, नाथद्वारा स्कूल, कालूजी सुथार का मकान, कंवरो भंवरो का बास, कानसिंह परिहार का मकान, लालसिंह राजपूत का मकान, सत्यनारायण रामावत का मकान, सुजान राम जी गोला का मकान व दूकान, मदनसिंह जी राठौड़ पूर्व चैयरमेन का मकान, महेन्द्र सिंह का मकान, किसान पार्क, चौथजी का बास, बढेर का बास, रेवत रामजी मास्टर का मकान व दूकान, श्रवणों का बास, गुमान िंसह कम्पाउन्डर का मकान, पवन पटेल कम्पाउन्डर का मकान, कालूजी सीरवी मास्टर की दूकान, राजेन्द्र महिपाल का मकान व दूकान, जैन ग्रामोउद्योग, दीवान माधवसिंह व छोटू बन्ना की दूकाने पुनः बढेर आई माताजी के मन्दिर का मुख्य द्वार बाएं ओर समस्त मकानात तक।
16	16	899	वार्ड नं. 16 उतर पश्चिमी बाएं ओर से मौती चौक, पेमाराम सीरवी फैन्सी दुकान, बंशीलाल ढोली का मकान, मुथासा की दुकान, पुरानी नगरपालिका ऑफिस, मंगलदासजी का मकान, बड़ली वाला बास, भंवरलाल पटेल का मकान, किशोरलाल सोनी पटेल समाज भवन, ढाल रोड़, सुमितनाथ जैन बड़ा मन्दिर छत्री चौक प्रकाशमल जैन मकान व दुकान, बेरी वाला बास, गोविन्दजी सोनी की दुकान, पटवार भवन बढेर चौक ललितजी सोनी मुनसा दर्जी, गोरधन सोनी, गोपाल/जगदीश तेली, राजेन्द्र दाधिच, बाबूलाल दाधिच, (नीलकण्ठ दुकान), पंचोलिया का बास, तोतारामजी व सागरजी सोनी का मकान, भूराराम का मकान, ओमजी लौहार, बड़ली वाला बास की गली, रामचन्द्रजी मोची की दुकान, कैलाश सोनी का मकान, महेन्द्रजी मोची, जीनगर भवन, किशोरजी छिपा, सोहनजी मोची दुकान व मकान, भंवरजी कंसारा

			पुखराजजी सोनी की दुकान, हेमराज सोनी, नरेन्द्र सोनी गिरधारी पटेल से पुनः मौती चौक, पेमाराम सीरवी फैन्सी दुकान के बाए ओर समस्त मकानात तक।
17	17	1072	वार्ड नं. 17 उतर पश्चिमी बाएं ओर से लक्ष्मण जी मेवाड़ा का मकान, लक्ष्मी सिनेमाघर, जितेन्द्र पटेल कोटवाल की दुकाने, मोतीलालजी पटेल की दुकान , दौलतजी का मकान व दुकान , लादूरामजी सोनी, पीर मो. का मकान, कल्याण जी सीरवी की दूकान, सागरजी सोनी की दूकान, मोती चौक मेघवालों का बड़ा बास, सदर बाजार, किशोर जी छीपा की दूकान, सत्यनारायण छीपा का मकान, मांगीलाल जी लखारा की दूकान व मकान के आगे गली में सदर शराब ठेका गिरीश भार्गव का मकान, बाबु तेली का मकान, गौतमचन्द्र भार्गव का मकान, धुरवप्रकाश भार्गव, ओमप्रकाश प्रजापत का मकान, कुम्हारों का बास, रामदयाल वैष्णव, बंगाली, कैलाशचन्द्र भार्गव, रमेश भार्गव, शनि महाराज का मन्दिर के सामने मनोज भार्गव, त्रिलोक भार्गव, ओमप्रकाश भार्गव, सज्जनराज भार्गव, सुरेश भार्गव, बाएं ओर समस्त मकान, रणछोरलाल भार्गव की दुकान व मकान, नई सड़क, भगवानराम सीरवी की दुकान, शिव विश्रामगृह, मिश्रीलाल प्रजापत की दुकान, आचार्यों की बास, तुलछाराम सांगर की दुकान, चुन्नीलाल जांगिड़ का मकान, प्रमोदजी सोनी का मकान, केशरजी सुथार का दुकाने, मेघवालों/आचार्यों का बास के पास शिवजी वैष्णव की दूकान हीरालाल चोयल की दुकाने, जयराम भिवराज की दुकान, नाथूराम जोधाराम पटेल की दुकान, पुखराज कोटवाल की दुकान, जोराराम सांवलेचा की दुकान, ओमजी, गोपीलालजी के मकान से पुनः लक्ष्मण जी मेवाड़ा का मकान, लक्ष्मी सिनेमा बाएं ओर के समस्त मकानात तक।
18	18	1197	वार्ड संख्या 18 उतर पश्चिमी बाएं ओर से नई सड़क शिवम् हॉस्पिटल के सामने वाली गली मे बांयी ओर भार्गवों का बास, बंशीलाल जी भार्गव दूकान व मकान, नेमीचन्द्र, गजेन्द्र भार्गव का मकान, शनिजी का मन्दिर, मोतीलाल भार्गव का मकान, कुम्हारों का बेरा, सम्पत जी भार्गव, मोती जी छीपा, रमेश प्रजापत, जितेन्द्र भार्गव, नाथाराम पटेल, कानाराम पटेल, वासुदेव भार्गव गली वाले मकानात, रामदयाल जी वैष्णव का मकान व दूकान, कासम खां तेली का मकान, घनश्याम लखारा की दूकान, सदर बाजार मोचीवाड़ा बायी ओर कन्हैयालाल सोनी का दूकान, कालूराम एमएलए, नन्दू लखारा, भीकाराम कंसारा के मकान, ताराचन्द्र की दूकान, पृथ्वीराज चौहान, प्रसन्न जी सोनी का

			<p>मकान, कुम्हारों का बास, श्यामजी छीपा, भागीरथ लखारा, सुथारों का बास, महेश जी लखारा, भगवती प्रसाद वैष्णव, बाबुलाल जी कुम्हार के मकान, बागवानों का बास, मोहनलाल प्रजापत, शरीफ जी बागवान, गफूर जी, भोलाराम प्रजापत, पप्पुजी/कन्हैयालाल टांक के मकान, ढगलाराम, पन्नालाल, करनाराम, डावरराम, मनोहर लाल, ओमजी मेघवाल एक्स.एन. के मकान, मेघवाल समाज भवन, गोमाराम जी, इब्राहिम जी के मकान, हनुमान मन्दिर सोजती गेट, रमेश प्रजापत का मकान, सीरवी समाज भवन प्याउ, शिवदास डांगी, बाबुलाल परिहार, प्यारेलाल मेघवाल, हरीश कटारिया के मकान व दूकान, ढगलाराम जी सांगर, बिलाड़ा वृहद कॉपरेटिव दूकान, श्याम चौहान का मकान व दूकान, चान्दमल कटारिया, राजस्थान साड़ी शोरूम, मोहन जी, मांगीलाल जी, राजेन्द्र कुम्हार, हरिराम भार्गव का मकानात् एवं दूकाने से पुनः नई सड़क शिवम् हॉस्पिटल के सामने वाली गली मे भार्गवों का बास, बंशीलाल जी भार्गव दूकान व मकान तक।</p>
19	19	1350	<p>वार्ड नम्बर 19 उत्तर पश्चिमी बांए ओर से बर्फों का बास, डूंगरजी वैष्णव के मकान आंगनवाड़ी केन्द्र, सम्पत जी दर्जी का मकान, श्याम भार्गव, प्रेमजी छीपा, रामनारायणजी लखारा का मकान, ललित जीनगर का मकान, शेषमल सत्यनारायण सोनी की दूकान, बढेर चौक रोड़ प्रेमराज जीनगर का मकान, रामचन्द्र जीनगर, ओमजी वर्मा का मकान, सत्तु नाई का मकान, समस्त अन्दर सुथारो का मकान, पंचोलिया का बास, गोपीलाल सोनी, मेनाराम, चम्पालाल दर्जी के मकान, देवाराम दर्जी का मकान, भूराराम दर्जी, की दूकान, दर्जी न्याती नोहरा, ढगलाराम/ओमप्रकाश जी दर्जी का मकान बढेर चौक, पोपुलर हैयर ड्रेसर की दूकान, रामलाल सीरवी दुग्ध वाले की दूकान, पारसमल दर्जी का मकान, हनुमानराम जान्जावत की दूकान, मानसरोवर होटल, भेराराम सुथार की दूकान, जांगड़ा मेडिकल दूकान व मकान, रामचन्द्र तेली का मकान, सोजती गेट रोड़, नया बास, गुरुकुल स्कूल, खरादियो/ जाटों, सातगरो का सिलावटो का बास, पारस लौहार का मकान, सोहनजी सोनी, इन्साफ खां का मकान, रमजान खां, इन्साफ खां पठान साइकिल वाले के मकान, हनुमान मन्दिर के सामने वाली गली, तुराब खां का मकान, महेन्द्र सीरवी, के मकान, कुम्भाराम जी, गोविन्द जी बामणिया, भीयाराम, मोहन कटारिया, रामलाल जी, कानजी कुमावत का मकान से पुनः बर्फों का बास, डूंगरजी वैष्णव के मकान के बांए</p>

			ओर के समस्त मकानात तक।
20	20	1363	वार्ड नं. 20 भाग उत्तर पश्चिमी बाए ओर से सोजती गेट बढेर चौक रोड़ भग्गा महाराज की दूकाने, लालचन्द सरगरा की दूकान, भभूतराम प्रजापत का मकान, रामलाल जी रावल का मकान, लालाराम/ घेवरराम लौहार का मकान, संवारो की लाईन, लिखमीचन्द जी सोनी का मकान, पन्नालाल जी सीरवी के मकान, सरगरो का छोटा बास गली, गर्ल्स स्कूल अशोक जी बागरेचा का मकान, हेमराज सोनी का मकान से पुनः गर्ल्स स्कूल सरगरो के छोटे बास वाली गली में दांए-बांए ओर पारसजी का मकान, हरलाल सरगरा का मकान, राजा बली का मन्दिर के सामने कैलाश सरगरा का मकान, भंवरलाल जी का मकान, जितेन्द्रजी का मकान, नेमीचन्द जी का मकान, शिवलाल जी मास्टर का मकान, दोनों तरफ से पुनः बांए ओर मोहनजी सरगरा का मकान, चम्पालाल जी का मकान नाथद्वारा स्कूल के सामने लालसिंह पन्नेसिंह का मकान, रामलाल जी सीरवी, भाटो की ढीमड़ी, रूपसिंह सीरवी का मकान, पेमजी पटेल के मकान, गौतम पटेल का मकान, दुर्गाराम जी मेघवाल का मकान, डूंगरराम सोनी का मकान, पाबुदान जी का मकान, शंकरलाल जी चौहान का मकान, अम्बेडकर सर्किल, धर्मशाला के सामने, भंवरलाल जी मेघवाल का मकान, माडीबाई/ भंवरलाल का मकान, किस्तुरराम जी सरगरा का मकान से पुनः सोजती गेट भग्गा महाराज की दूकाने के बाए ओर के समस्त दुकाने व मकानात तक।
21	21	1079	वार्ड नं. 21 उत्तर पश्चिमी बाए ओर से पुराना कल्पवृक्ष का रास्ता पर हनुमान राम मुलेवा का मकान, एस.जे.डी. स्कूल, सीरवी समाज की बगीची, घेवर जी पटेल का मकान, राजपूत का मकान, भीयाराम जी बर्फा का छात्रावास, जगदम्बा स्कूल, बाबुजी काग का मकान, नारायण जी मास्टर का मकान, किशोर जी सीरवी का मकान व दूकान, रिक्तिया भैरूजी चोराया मन्दिर, आईजी मारवाड़ महाविद्यालय, लाबुजी सीरवी का मकान व दूकान, पारसमल जांगिड़ का मकान, सतारबा का मकान, दयाल साहू का मकान, बाबुलाल प्रजापत का मकान, कुम्हार कॉलोनी, लालाराम सरगरा का मकान, रामचन्द्र जी सीरवी का मकान, प्रमोद एस.टी.डी. सोजती गेट, पूरण बा भायल का मकान व दूकान, सोहनजी का मकान, सरगरों की गली, हरदेव राम सरगरा की दूकान व मकान, मांगीलाल प्रजापत का मकान, राजूराम जी सीरवी का मकान, गनी मोहम्मद जी का मकान,

			<p>लखाराम सीरवी का मकान, संजय सीरवी वकील का मकान, पाबुराम पटेल का मकान, नगरपालिका भूमि, ओमजी एक्स.एन. पी.डब्ल्यू.डी. का मकान, अकबर खां का मकान, धर्माराम पटेल की दूकान, मुकेश जी लौहार का मकान, सरदार पटेल स्कूल, पटेल समाज दूकाने, नारयण जी पटेल का मकान, शेषाराम जी सांगर का मकान, भीकाराम जी पटेल का मकान, हरिराम जी सरगरा का मकान, गायत्री कॉलोनी, हरिराम जी लौहार की दूकान व मकान, कालूजी की दूकानें, छोटु भाई तेली, पुराना कलवृक्ष का रास्ता, कालूजी सीरवी का मकान, बाबुलालजी सरगरा का मकान, दूदाराम जी सरगरा का मकान, मोहनलाल सरगरा का मकान, पटेल समाज आम रास्ता, बुद्धाराम जी का मकान, पारसजी मेघवाल का मकान, आईजी डिर्टेजन्ट कम्पनी पुनः हनुमान राम मुलेवा का मकान, एस.जे.डी. स्कूल, सीरवी समाज की बगीची के बाएं ओर के समस्त मकानात तक।</p>
22	22	960	<p>वार्ड नम्बर 22 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से चावण्डा कॉलोनी डी रोड मोतीलाल पटेल के मकान, मंगल जी आचार्य का मकान, चावण्डा कॉलोनी की सी. बी. रोड, अमरदास जी वैष्णव, मोहनजी पटेल की दूकान व मकान, पुनाराम जी चोयल की दूकान बिंजवाड़िया चोराया, ए. रोड नुरानी मस्जिद नई सड़क, तुलछाराम सांगर की दूकान, भटनागर, शिवम् अस्पताल, थार बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्रेम सिंह जी सांखला, तुलछाराम सीरवी सरपंच, लालसिंह पन्नांसंह के मकान व दूकान, जाट छात्रावास, पटेल कॉलोनी, श्री आईजी महिला अस्पताल/ ट्रोमा सेन्टर, कालूराम जी पटेल मकान व दूकान, संजय वकील की दूकाने, मदन जी हरिजन का मकान, श्री आईजी महिला अस्पताल के पीछे वाले गेट व चिकित्सक आवास से बिंजाराम जी सुथार का मकान, भंवरलाल जी पटेल के मकान, दीनदयाल जी सुथार का मकान, मोहनलाल जी दर्जी की गली, कालुराम जी जाट के मकान, कुनाराम जी लौहार के मकान, भाकरराम मेघवाल का मकान से प्रकाश पुत्र श्री पुखराज भार्गव के मकान, नरेन्द्र जी आचार्य के मकान से पुनः चावण्डा कॉलोनी डी रोड मोतीलाल पटेल के मकान के बाएं ओर समस्त मकानात तक।</p>
23	23	1369	<p>वार्ड नम्बर 23 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से कल्पवृक्ष, बिंजवाड़िया सम्पर्क सड़क से बेरा कतेवड़ा, बेरा खजुर वाली श्रवण, तिलायचों का ढिमड़ी, सिंदडो की ढिमड़ी, बाबुलाल सिन्दड़ा का भू-खण्ड,से रोड क्रॉस करते हुए शिवशक्ति ऑयल मिल के सामने जय देव नगर अभीनव स्कूल नया परिसर के पीछे बाएं ओर, भिवराजों</p>

			<p>की बावड़ी, धनपत जी सोनी, अजमेर जयपुर मार्ग, घीसुलाल सीरवी का मकान, आर्दश मोटर गेरेज, राठौड़ मार्केट गली, मदनजी सुथार का मकान, मोतीलाल जी भार्गव, राठौड़ मार्केट गली, ओमजी सिसोदिया का मकान, सत्यनाराण गौड़, राठौड़ मार्केट के बायें तरफ अरिहन्त इलेक्ट्रिक, कॉर्पोरेटिव सोसायटी सम्पूर्ण अशोक एसटीडी, पोकरराम कुम्हार, गजानन्दजी का मन्दिर, सम्पूर्ण कुम्हार कॉलोनी, बगदाराम पटेल की दूकान, गोपाराम सीरवी की दूकान, याकूब जी मुसलमान की फेक्ट्री व दूकान, नई सब्जी मण्डी का रास्ता, गिरधारी लाल गवारिया के मकान, समस्त तकिया, बिंजवाड़िया चोराया, गोकुल जी प्रजापत का मकान, नई सब्जी मण्डी, रामदिन लौहार का मकान, दुध डेयरी, सम्पूर्ण सूर्या कॉलोनी, अभीनव स्कुल जयदेव गार्डन से रोड़ क्रॉस, विजय राज आर्चाय का मकान व दुकान, हापुराम मेघवाल के मकान, अमराराम जी मेघवाल का मकान, कालूराम लौहार, दिलीप टांक, लौहारों के समस्त मकानात, हरलाल विश्नोई, दिनेश वैष्णव का मकान, दुर्गाराम सुथार, लाबुराम जी तिलायचा के भूखण्ड, राज पब्लिक स्कुल रोड़ क्रॉस बाए ओर रिक्तिया भैरू चोराया, आर्दश स्कुल वाले समस्त मकानात, भीयाराम जी का मकान, विशन सिंह जी राठौड़, रोहिताश्व छात्रावास, कल्पवृक्ष का पुराना रास्ता, भेराराम जी पटेल, मातेश्वरी नगर के सामने, गोपजी का मकान बेरा श्रवण, मोहनलाल जी सीरवी की दुकान कल्पवृक्ष चौराया, बेरा गुन्दीवाला से पुनः कल्पवृक्ष, बिंजवाड़िया सम्पर्क सड़क से बेरा कतेवड़ा के बाए ओर समस्त मकानात तक।</p>
24	24	1090	<p>वार्ड नम्बर 24 उत्तर पश्चिमी बाए ओर से पीर बाबा का थान से कृषि भूखण्ड लेते हुए मोहनजी पंवार का खेत, उचियार्डा बिलाड़ा रोड़ तुलछाराम जी की ढीमड़ी, डय्यो का अरट, शंकर स्टील फर्नीचर, रामदेव मन्दिर, पंवारों की ढीमड़ी, आईजी कल्याण शास्त्री नगर, हाम्बड़ो का बारला उगणिया, बर्फ फेक्ट्री, तुलछाराम लौहार प्याउ, गैस गोदाम झुमरजी सुथार का मकान, सम्पूर्ण गायत्री कॉलोनी, चेनाराम सीरवी का भूखण्ड, जगदीश जी हाम्बड़ की दूकानें, कल्याण जी चान्दावत का मकान, छीपा समाज भवन, कॉर्पोरेटिव सोसायटी गोदाम, पुसाराम सुथार का मकान, कानाराम बर्फा की दुकान, चौधरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, जे.एल काकरिया गोदाम, सुजानजी चान्दावत का मकान, मल्लाराम जी कुम्हार का मकान, सागरजी सोनी का मकान, गोपीलाल मनोहर सिंह हाम्बड़ का बेरा, हाम्बड़ो की बावड़ी, मिश्रीलाल हाम्बड़ की शिव शक्ति</p>

			<p>ऑयल मील, बिंजवाडिया सड़क जगदीश जी हाम्बड़ की ऑयल मील, मोरिया का चबुतरा, डॉ. धमेन्द्र सीरवी का मकान, न्यू आईजी कॉलोनी, हाम्बड़ो का उगणिया, कालूजी हाम्बड़ की ट्यूबवेल, हनुमान जी मास्टर का बेरा, जान्जावतों का भादरवा, लालावतो की ढीमड़ी, आईजी प्रकाश नगर कॉलोनी, बढेर का भादरवा, पन्नाराम जान्जावत का बेरा, बेरा छतरी वाला, भीयावतो का अरट, भेवरिया बेरा, उचियाड़ा सम्पर्क सड़क, चौधरियों का अरट, टीलाराम बर्फा का मकान, भूराराम बर्फा का बाडा, राठौड़ो का गोरवा, कृषि भूखण्ड सामुदायिक शौचालय, बेरा राठौड़ो का गोरवा से पुनः पीर बाबा का थान से कृषि भूखण्ड लेते हुए मोहनजी पंवार का खेत उचियाड़ा बिलाड़ा सड़क के बाएं ओर समस्त मकानात तक।</p>
25	25	936	<p>वार्ड नम्बर 25 उत्तर पश्चिमी बांए ओर से दलपत सिंह की भूमि से एन.एच-112 बिलाड़ा की तरफ, पतरो वाला गोरवा, गहलोतो का गोरवा, प्रेमसिंह सांखला का मकान तेजाराम जी का आईजी फिलिंग स्टेशन, खेतजी का अरट, चोयलो का अरट, मुढीया खान्देडा (लक्ष्मणजी लौहार का भूखण्ड) से उचियाड़ा जाने वाली सड़क, राठौड़ो का अरट, आगलेचों का गोरवा, उचियाड़ा गांव में हनुमान मन्दिर के सामने नारायणलाल कुम्हार के मकान, पारसमल मेघवाल का मकान, अलखजी के मन्दिर से बांयी तरफ, भिरमराम मेघवाल का मकान, सुजानराम सैन का मकान, शिवनाथ जी का मकान, ओमप्रकाश सीरवी की दुकाने, प्याउ, बाबुलाल सरगरा, मकान व दुकान, सोहन जी सरगरा, भंवरी देवी, सामुदायिक शौचालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उचियाड़ा एवं मेरावतो का नोकड़ा से पुनः दलपत सिंह की भूमि से एन.एच-112 बिलाड़ा की तरफ के बाए ओर मकानात तक।</p>
26	26	1208	<p>वार्ड नम्बर 26 उत्तर पश्चिमी बांए ओर से उचियाड़ा बिंजवाडिया सम्पर्क सड़क सुथारो की खतोड़, बचनाराम पटेल का मकान, पुनाराम सरगरा, दुग्ध डेयरी सिनियर स्कूल चम्पालाल सरगरा का मकान, मांगीलालजी सरगरा का मकान, लालाराम जी सैन का मकान चम्पालालजी फौजी का मकान, कैलाशजी मास्टर का मकान, मनोहर परिहार का मकान, दुर्गाराम पंवार के मकान, हथाई चौक, रोड़ क्रॉस हरिओम जी के मकान, मदनजी, नारायणलाल जी गर्ग, रामदेव मन्दिर, दांए ओर बेरी वाला बास बोहराराम मास्टर का मकान, गोविन्दराम का मकान, कोजाराम मेघवाल, पीर बाबा की दरगाह से पुनः बांए ओर दलपत सिंह जी ठाकुर के मकान, देवासियों का मोहल्ला पानी टंकी, खेडा नाडा से</p>

			बर्फा की ढीमड़ी, लच्छाराम जी, बेरा मुकनदासजी का बड़वा से पुनः उचियार्डी सुथारो की खतोड़, बचनाराम पटेल का मकान के बांए ओर समस्त मकानात तक। (आगलेचो का बास, पंवारो का बास, राठौड़ो का बास, आमली वाला बास, बर्फो का बास, तेलियो का बास, बढेर चौक उचियार्डी, मेरावतो का बास, नाईयो व सुथारो का बास सरगरो का बास, डेयरी के पीछे हरिजन बस्ती,)
27	27	933	वार्ड नम्बर 27 उतर पश्चिमी बांए ओर से उचियार्डी रोड़ बेरा धोरायत ऊर्जाराम जी का मकान, बेरा रतनजी का सदारण से मिठी-भू की ढीमड़ी, मेरावतो का भडाट/ बाडिया, मुलेवो का अरट, शिम्भुजी मुलेवो का मकान, जीवनदास का मकान, इन्द्र सिंह राजपुत की दूकान, बेरा कोलजी का अरट, कुषि भूमि, हाम्बड़ो की बावडी बर्फो की बावडी बर्फो का खारचिया, मेरावतो की ढीमड़ी, बिंजवाडिया सम्पर्क रोड़ मिश्रीलाल पूर्व चैयरमेन (अबजी का झालरा) बेरा खारडी, पन्नालाल पाबुजी चोयल का मकान, चोयल हाम्बड़ो का उगणिया, लेरचो का अरट, रेवालिया, सांखलो का अरट, नारायण पटेल की दूकान, मल्लाराम/ किशनाराम पटेल का मकान, बिंजवाडिया चोराया रूपजी का अरट व डोली हाम्बड़ो जगदीश हलवाई की ढीमड़ी चोयलो का अरट तुलछाराम भंवरलाल जी राठौड़ की कृषि भूमि, बेरा उपरला, निचला व बिचला भेवरिया छोड़ते हुए पुनः उचियार्डी रोड़ बेरा धोरायत के बांए ओर समस्त मकानात तक।
28	28	944	वार्ड नम्बर 28 उतर पश्चिमी बांए ओर से कल्पवृक्ष रोड़, बेरा सोनायत दोलाराम जी का बेरा रोड़ क्रॉस, बेरा बढेर का उगणिया के सम्पूर्ण मकानात को शामिल करते हुए पुनः, रोड़ क्रॉस, बांए ओर कल्पवृक्ष स्कूल शौचालय, कल्पवृक्ष मन्दिर, चौथजी का बड़वा, खिलावतो की ढीमड़ी, पोल्टीर फार्म, रिक्तिया भेरू चौराया रास्ता, नारनवालो का भादरवा, पंवारो की ढीमड़ी, कैलाश जी वैष्णव का मकान, मातेश्वरी नगर, सोतवाल भवन, जे.डी. मेमोरियल स्कूल, तरुण मुलेवा के मकान के पास रतनलाल सीरवी का भूखण्ड, मोबाइल टावर, टीलाराम राठौड़ का बाड़ा से पन्नालाल बी.ए. का मकान, चन्द्रप्रकाश सरगरा का मकान, आलोक स्कूल, हर्ष रोड़, महेन्द्रजी जान्जावत का मकान, कार्यालय भण्डार प्रबन्धक रोड़ क्रॉस, बर्फो की बावडी, चौपड़ा फीडर नहर रास्ता, पारसमल पटेल का मकान, गीताजंली स्कूल, बर्फो का मकान, मूलजी का अरट, रतन जी का अरट, कानजी थानेदार का बेरा, चौपड़ा फीडर नहर के उपर, बेरा ढंडिया पुरखोबा का बेरा, जोधबा की ढीमड़ी, मांगीलाल जी राठौड़ का बेरा, कागण

			माता की ढीमड़ी, मोहन जी की दूकान व भूखण्ड, (हर्ष रोड़ नहर) पुलिया रेतिया गडार प्याउ, रेतिया बेरा, छोटा बाग, नहर से पुनः कल्पवृक्ष रोड़, बेरा सोनायत के बांए ओर समस्त मकानात तक।
29	29	930	वार्ड नम्बर 29 उतर पश्चिमी बांए ओर से हर्ष रोड़ गोटवाल कृषि फार्म, कचराराम धमाणिया का बेरा, लकुड़ी मगरी की दूकाने, सरस्वती स्कूल, रामदेव मन्दिर बाग की ढाणी, दुर्गारामजी का बेरा व फेक्ट्री ट्यूबवेल लौहार कृषि फार्म, पुखजी/रामचन्द्र जी का बेरा, आर्दश नगरी स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता, ठाकुरजी का भेवरिया, बिलाड़ा नहर के ऊपर होते हुए पुनः चोपड़ा फिडर सोजत मार्ग रामदेव मन्दिर से बांयी ओर चन्द्रप्रकाशजी चोयल का प्लांट, बाड़िया बेरा सांगरो का नोखड़ा, बारला अरट, कमलजी का भट्टा के सामने नारणां की ढीमड़ी, नेणचों का अरट, सोजत मार्ग हनुमानजी का मन्दिर से चैनकुपी जाने वाला रास्ता बांयी तरफ बेरा ठाकराट डोली तिलायचों का नोखड़ा जयराम जी पटेल, दीपक मिस्त्री का मकान, चैनकुपी मन्दिर बाबुजी सांगर का मकान, नाथुजी सीरवी का बेरा, राठौड़ो का नवोड़ा, केनदास जी की बावड़ी बाग की ढाणी के पीछे हर्ष जाने वाले रास्ता से पुनः हर्ष रोड़ गोटवाल कृषि फार्म के बांए ओर समस्त मकानात तक।
30	30	1004	वार्ड नम्बर 30 भाग उतर पश्चिमी बांए ओर से चैनकुपी, दुग्ध डेयरी से जोगाराम जी पटेल मास्टर का बेरा, तिलायचों का बेरा, मोती सागर बेरा, प्रजा स्कूल, सोजत मार्ग रोड़ क्रॉस रमेशजी पटेल का मकान, बचनारामजी का बेरा, बुढावा बेरा, कमलजी का भट्टा, मुन्देड़ा खन्देड़ा, किस्तुरबा सरगरा की प्याउ कमल जी के भट्टे के पीछे, पन्जी सांगर बेरा, माता की मगरी बर्फों का नया बेरा, कार्गों का नया बेरा, खीयाराम पटेल का बेरा, आनन्द सागर बेरा मांगीलाल काग, गोपारामजी पटेल, मांगीलाल पटेल का बेरा, जयदुर्गा कृषि फार्म, बर्फों का नवोड़ा, डीगडी माता मन्दिर, भेरू सागर बेरा, हीरा सागर, सफ्तारों मोहनजी राठौड़ डेयरी वालो का बेरा, रावों की ट्यूबवेल, बेरा शिवसागर, बेरा प्रेमसागर, तेजारामजी जाट का बेरा, अनजी जय अम्बे मेडिकल का बेरा, जोगी मगरा ओमजी चोयल का बेरा, मांगीलाल जी मास्टर का बेरा, भंवरलाल जी किशोर साइकिल वाला का बेरा, ओगड़ जी चन्दु का बेरा, सोजत मार्ग, रोड़ क्रॉस, डुंगरजी सोनी की दुकान प्याउ, जोध सागर, भवानी कृषि फार्म, आईजी फिलिंग, गोपाल फिलिंग, खातियों की ढीमड़ी, भौमियों का नवोड़ा, शेषाराम मानणिया का बेरा, हरदेवजी चौकिदार का बेरा, दिवानजी प्याउ स्कूल, आईजी कृषि फार्म, जस्साराम पटेल कुम्हारों का नया बेरा,

			बिलाड़ा सीमा हर्ष रोड़, सादों की ढाणी, हनुमानजी व चुतरोजी का मगरा, त्रिलोक सागर, दीवान प्याउ रोड़ से पुनः चैनकुपी, दुग्ध डेयरी से जोगारामजी पटेल मास्टर का बेरा के बांए ओर समस्त मकानात तक।
31	31	1178	वार्ड नम्बर 31 उतर पश्चिमी बांए ओर से लखावतों नोकड़ा, डेयरी बूथ, राहिताश्व स्कूल, कागो का अरट, बर्फों का अरट, दिवान साहब का बेरा/बाग, धमाणियों का अरट, नहर, कालूराम/भभूतराम सोतवालों का अरट, कागों की ढीमड़ी/उगणिया, नहर उपर होते हुए रेतिया गजर प्याउ से हर्ष रोड़ पुखजी व रामचन्द्र जी लौहार का मकान, बेरा पुलावतों का अरट, मांगीलालजी का बेरा, लकुड़ी मगरी, सोलंकी का अरट दुर्गारामजी पटेल की दुकान व मकान, नाथों का आसन, मालियों का अरट, रोड़ क्रस सांडघर भंवरलालजी की प्याउ, बाग ढाणी चैनकुपी रास्ता मुकनारामजी का बेरा, बेरा बड़ला वाला, राठौड़ो का नया बेरा, बेरा चैनकुपी से हर्ष गांव रोड़, राठौड़ कृषि फार्म, प्रेमसागर, नया बेरा निम्बडिया, बगदारामजी मालियों का बेरा, उपलाआट, नारायणजी राठौड़/अणदारामजी गुड़िया, राठौड़ों का बेरा, मंगलारामजी धमाणिया का बेरा, पुरोहितों का बेरा, भण्डारियाट, दुदिया बेरा, बिलाड़ा सरहद होते हुए हर्ष देवल मन्दिर, हाम्बडों का नया बेरा, कच्चा रास्ता, रोहिताश्व स्कूल जाने की तरफ कागों की भेर, भट्टो वाला बेरा, छोटी भेर, पुरखारामजी काग का बेरा से पुनः लखावतों नोकड़ा, डेयरी बूथ, रोहिताश्व स्कूल के बांए ओर समस्त मकानात तक।
32	32	1248	वार्ड नम्बर 32 उतर पश्चिमी बांए ओर से बिंजवाडिया बिलाड़ा सीमा बर्फों की बावडी, कागो का निम्बडिया, लाखेलाव, बर्फों का नवोडा, बिंजवाडिया चोराया डेयरी बूथ बिजुडिया बेरा भूमि, राठौड़ो का उगणिया, खारा बेरा, सातपुरो का अरट, खटीको की ढीमड़ी लक्ष्मणजी लखावत का बेरे के रास्ता मामाजी नगर कॉलोनी, मामाजी का थान कल्पवृक्ष कागों का बेरा /ढीमड़ी, गोविन्दजी काग का बेरा, जान्जावतों का अरट, नहर पुलिया पर छेलजी पटेल का बेरा, लक्ष्मणजी लखावत का बेरा, बेरा राज बाग, रतनजी का बेरा धमाणियों का अरट नहर क्रॉस हुगली ठुगली ढीमड़ी बेरा सांगरो का अरट धर्मराम पूर्व पार्षद रंगरेजो का अरट, रोहितदास नगरी स्कूल डेयरी बूथ पलावतो का खारचिया झालरा दुर्गाराम मालियों की ट्यूबवेल बेरा, कागो की भेर बिंजवाडिया हर्ष सीमा हर्ष देवल मन्दिर के सामने नारायणजी का बेरा मोहनजी, राजूजी सीरवी का बेरा बग्गाराम सांगर का बेरा, सांगरों का

			निम्बडिया, नेमाराम जान्जावत का बेरा, हराई, बिलाड़ा सीमा बिंजवाडिया स्कूल चोयलो का बेरा, मलजी सांगर का बेरा ट्यबवेल, हर्षा देवल सम्पर्क रोड़ नाडी (रोहिताश्व गौशाला, बढेर का रनिया बेरा रोहिड़ा वाला, खेतारामजी का बेरा, भट्टो वाला झालरा 1, 2, 3) से पुनः सरहद ग्राम बिंजवाडिया बिलाड़ा बर्फों की बावडी के बाएं ओर समस्त मकानात तक।
33	33	925	वार्ड नम्बर 33 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से खारिया मिठापुर सीमा सरहद शिवनगरी स्कूल के पीछे पंवारों की भडाट गोपाराम की दूकान, बाबुलालजी सीरवी बी.एल.ओ का मकान, मांगीलालजी का मकान, गणपतजी का मकान, रोड़ क्रॉस उपरला भेवरिया बिचला भेवरिया व निचला भेवरिया, रोड़ क्रॉस शिवनगरी स्कूल जीएसएस सांडघर ढगलजी राठौड़ का बेरा, बेरा पाटिया, मेरावतों का अरट, पोल्ट्री फार्म मगरा बेरा चुचाई बिंजवाडिया चोराया कागों का निम्बडिया लौहारो का हरिसागर बिंजवाडिया बिलाड़ा सीमा मिठानिया मगरा, रामसागर मोतीसागर शिवसागर, समदड़ा, ऊर्जारामजी बर्फा का बेरा, रतनारामजी सांखला का बेरा, भंवरजी का बेरा, पुनः खारिया मिठापुर सीमा सरहद शिवनगरी स्कूल के पीछे पंवारों की भडाट तक बाए तरफ के समस्त मकानात।
34	34	913	वार्ड नम्बर 34 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से खारिया ग्राम सरहद नहर बाला से रामनाथजी की कुटिया से उचियाड़ा प्याउ की तरफ जाने वाला रास्ता बाएं तरफ पंवारों का रेतिया सावलेचो का अरट, हनुमान (उचियाड़ा प्याउ) बाएं तरफ खारिया मीठापुर की तरफ बेरा लेरचो का अरट, राठौड़ो का अरट, मुलेवों की ढीमडी, पंवारों की ढीमडी, सांखलों का रेतिया, लेरचो का पिपलिया, श्रीआईजी महिला महाविद्यालय पूर्वी सम्पूर्ण बेरे व मकनात् व नेशनल हाईवे-112 रोड़ को क्रॉस करते हुए बाएं तरफ दलपत सिंह ठाकर का बेरा, लौहारो का रेतिया, मेघवालों की ढीमडी, भोमिया का रेतिया 1 व 2 एवं 3, रोहिताश्व स्कूल, माधुसिंह चान्दावत का बेरा, ऊर्जाराम मूलेवा का मकान, मांगीलाल/मूलाराम का मकान, टीकमराम पंवार का मकान धोरायत के सामने से आगे रूपारेल खारिया मीठापुर जाने वाली रोड़ बाए तरफ हरजी पंवार का बेरा, भौजियो की ढीमडी, बर्फों का कोयटा, मालवीय कृषि फार्म, पेमजी की ढीमडी, एनएच-112 को रोड़ क्रॉस करते हुए भोपों का नवोड़ा, सेपटो की ढीमडी, मुलेवों की ढीमडी से पुनः बाए ओर के बाणगंगा भाला खारिया सीमा रामनाथ जी की कुटिया तक सम्पूर्ण कूएं बेरे मकानात् तक।
35	35	1168	वार्ड नं. 35 उत्तर पश्चिमी बाएं ओर से बाणगंगा बाला रामनाथ

		<p>कुटीया के सामने की तरफ से नाथो का आसन, नाईयों का मगरिया, बेनारामजी का बेरा, बाणगंगा सोलंकी कृषि फार्म सम्पूर्ण मकानात्, बाणगंगा बाला भाटो की ढीमड़ी से जोधपुर रोड बाणगंगा पुलिया से बिलाड़ा शहर की तरफ कर्नाटक गज केसरी, घीसारामजी काग का बेरा, देवड़ा कृषि फार्म बाणगंगा मोड़, जीएसएस सांगरो का बेरा, धागा फेक्ट्री पुराना चुंगी नाका न. 01 , आईजी एजेन्सी, विनय होटल, सूर्या होटल, खारिया की तरफ जाने वाला रास्ते पर भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल हाईवे 112 रोड क्रोस, गणपति ट्रांसपोट, ललवानी मार्केट, धनपतजी सीटीओं की दूकाने, मूलजी सुथार वाली गली, माहेश्वरी ब्रदर्स, अमृतजी आचार्य, वर्मा इलेक्ट्रिक, महेन्द्र एसटीडी, राठौड़ मार्केट की दूकाने, बजरंग ब्रदर्स, सोनीजी का मकान, माहेश्वरी ब्रदर्स का गोदाम, खाली भूखण्ड, चेतन गाच्छा का मकान, कैलाश सोनी, मांगीलाल प्रजापत का मकान व दूकान, दूध डेयरी से रोड क्रोस, राजश्री पेट्रोल पम्प, पोलियावास बेरा, पालियावास स्कुल, सियालो की ढीमड़ी, जीएसएस जाने वाले रास्ते पलावतों की बावड़ी व अन्दर के सम्पूर्ण बेरे व मकानात्, भोमिया जी का थान, सियालो का निम्बड़िया, आईजी रेस्टोरेन्ट (शिम्भूसिंह), पुनः बाणगंगा बाला जाने वाले रास्ते पर शेरजी का अरट, जयराम जी माली का मकान होते हुए बाणगंगा भाला बांयी तरफ के अन्दर के सम्पूर्ण बेरे कूएं व मकानात्।</p>
	39553	

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, बिलाड़ा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।